At 55,000, US clears most Indian student visas in '21

Ahmedabad, 23 August

he US Mission in India on Monday said its Embassy and Consulates have approved more student visa applicants in 2021 than ever before, "despite the Covid-19 pandemic".

More than 55,000 students exchange visitors will go to the US from India this year, and the number is going up each day with the US Mission planning to approve more applications.

Embassies and Consulates usually begin interviews for applicants for the fall semester in May. However, the schedule has been deferred by two months this year due to the pandemic.

In July, the work to issue visas started as soon as conditions allowed for resumption of visa services without risking applicants' health.

The US Embassy and Consulates offi-



cials said they worked beyond the working hours to accommodate as many visa applications as possible. On the record student visa approvals, Ambassador Atul Keshap, Chargé d'Affaires at the US Embassy in New Delhi, told Business Standard, "The US Mission in India is proud to facilitate students' travel and

study given the unique experience of studying in the US. Indian students, too, enrich the US society, achieve high levels of academic success, and deepen the bonds of friendship between our countries."

The US Mission said the American higher education system comprised over 4,500 nationally and regionally accredited colleges and universities in the US, which are recognized worldwide for the quality of their programmes, faculty, and

Given the continued interest among Indian students looking to study in the US, the US Mission to India has not only invited students to visit https://educationusaindia.usief.org.in/but also participate in the upcoming Education USA University Virtual Fairs, to be held on August 27 for graduates, and on September 3 for prospective undergraduate students.

India could gain \$11 trn in 50 yrs with climate action, says report

Mumbai, 23 August

Unmitigated climate change can cost India \$35 trillion in economic potential over the next 50 years. Therefore, India must act now to prevent the country from the colossal loss, according to the latest Deloitte Economics Institute.

The report, titled, "India's turning point: How climate action can drive our economic future", reveals how the country could instead gain \$11 trillion in economic value over the same period.

Deloitte's report comes against the backdrop of the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) report that flags serious concerns related to climate change and its catastrophic impact on the world due to ris-

retreat in the Hindu Kush Himalayas; compounding effects of sea-level rise and intense tropical cyclones leading to flooding; an erratic monsoon; and intense heat stress are likely to impact India in recent years, indicated the IPCC report released earlier this month.

According to Atul Dhawan, chairperson, Deloitte India, India has a narrow window of time - the next 10 years - to make the decisions needed to alter the trajectory of climate change.

No one is immune to the impact of climate change but for India, points out Dhawan, this is a window of opportunity to "lead the way and show how climate action is not a narrative of cost but one of sustainable economic

ECONOMIC COST IF NO ACTION TAKEN

(In \$ trillion)

11	
5	
8	
11	
y 35	
	5 8 11

growth."

As India aspires to be a \$5trillion economy, it is not just foreign and domestic investments that will be the key in driving growth, the country must also take this opportunity to align its ambitions with climate choices, he says.

With no action taken on climate change, the average global temperatures could rise

this century. This will make it harder for people to live and work, as sea levels rise, crop yields fall, infrastructure is damaged, and other challenges emerge, threatening the progress and prosperity that the nation has enjoyed in recent decades.

Over the next 50 years, the top five most impacted industries in terms of economic activity are expected to incur a significant share of climaterelated loss, says the report. These industries -services (government and private), manufacturing, retail and tourism, construction, and transport - currently account for more than 80 per cent of India's GDP. Together, they form the basis of the country's contemporary economic engine.

Genus Power Infrastructures Limited Genus

(Registered Office: G-123, Sector-53, Noida-201307, Uttar Pradesh)
(Tel.: +91-120-2581999; E-mail: cs@gerus in; Website: www.geruspower.com; CIN: L51909UP1992PLC05199)

Notice of the 29th Annual General Meeting, Book Closure and E-Voting Information

Notice of the 29th Annual General Meeting, Book Closure and E-Voting Information
Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Genus
Power Infrastructures: Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 16, 2021 at
3.30 pm. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAM"), in
compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made
thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Repulsion, 2015, read
with the MCA's circular no. 14/2020 dated April 08, 2020, circular no. 17/2020 dated April 03, 2020,
circular no. 20220 dated May 95, 2020 and circular no. 202201 dated January 33, 2021 and all
other relevant circulars issued by MCA and the SEBI in this regard (Collectively referred to as
rapplicable circulars; 1b to transact the business as sel forth in the Notice of AGM. The Members can
join the AGM in the VCIOAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the
commencement of AGM by following the procedure mentioned in the Notice of AGM. The Members can
laid noticesses are registered circulars; the Motice of AGM and Annual Report for the financial
year 2020-21 have been sent on August 20, 2021 to all those Members of the Company, whose
email addresses are registered with the Company, Register and Transfer Agent ("RTA") Depository
Participant(s). The aforesaid documents are also available on websile of the Company at
www.penuspower.com, website of the Contral Depository Services (India) Limited ("CDSL") at
www.rsenida.com.
Members holding shares as on the out-off date is. September 09, 2021 may cast their vote
electronically on the business as self forth in the Notice of AGM through remote e-voting or e-voting
during the AGM. The detailed procedure or instructions for e-voting and joining the AGM are
provided in the Notice of AGM through remote e-voting shall not be
allowed beyond the said date and time.

(1) The remote e-voting shall commence on Monday, September 13, 20

it is the bey obtained that it is not manifold by the amember to vote using the territore e-county facility. Members have also an option to cast their vote through e-voting by attending the AGM. Members can optior only one mode of voting. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their

vote again.

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. September 09, 2021 only shall be entitled to avait the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM. A person, who is not a Member as on the said cut-off date, should treat this Notice or Notice of AGM for information purposes only.

Members, who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company, can cast their vote through remote e-voting system during the AGM by following the procedures/instructions, mentioned in the Notice of the AGM.

Notice of the AGM.

Members, who have not registered their Email IDs or those who have acquired shares after the

Members, who have not registered their Email IDs of those who have acquired shares after the dispatch of the Notice of the AGM including the Annual Report and who confinue holding shares as on the cut-off date, i.e. Thursday, September 09, 2021, can obtain/generate the user ID and password as per the instructions provided in the Notice of the AGM for e-voting. However, if a person is already registered with CDSUNSDL for e-voting, then existing login ID and password can be used for casting vote. Member can also login using the login credentials of his her demat account through his/her depository participant registered with NSDL/CDSL for e-voting facility. Members are advised to update their mobile number and email-id in their demat accounts in orderst accesses a suplos facility.

Place : Jaipur Dated : August 23, 2021

can be used for casting vote. Member can also long using the login crodentials of his her demal account through hisher depository participant registered with NSDL/CDSI, for e-voting facility. Members are advised to update their mobile number and email-fiel in their demal accounts in order to access e-voting facility.

(vi) Members, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barried from doing so, shall be eligible to vote through-e-voting system available during the AGM.

(vii) Member, participating through the VC/OAVM facility, shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

(x) If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk evoting@cdslindia.com or contact at 022-2305738 and 022-23055854243.

(x) All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dak), St. Manager, Central Depository Services (India) Limited, AlWing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafallal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-40013 or send an email to helpdesk evoting@cdslindia.com or call on 022-230585424(3).

(xi) The company has appointed Mr. C. M. Bindia (A. Co., Company Serviciaries, Jaipur, as the scrutinizer to sociulize the voting at the AGM and remote e-voting process in a fair and transgerent manner. The Board of Directors has recommended a dividend of Re. Dos (Fifty paisa) per equity shares of the face value of Ra. 1 each (Le. 50% of the face value) for the FY 2020-21 to the dividend of Re. Dos (Fifty paisa) per equity share on equity shares of the face value of Ra. 1 each (Le. 50% of the face value) for the FY 2020-21 to the dividend of Re. Dos (Fifty paisa) per equity share on equity shares of the face value of Ra. 1 each (Le. 50% of the face value) for the FY 2020-21 to the dividend of Re. Dos (Fifty paisa) per equity share

For Genus Power Infrastructures Limited Ankit Jhanjhari Company Secretary

ત્રાત અમારુભાવાય જ પાસ સ્પાલચ્ચ કે આર સમારજવાદ આ) લાહુ વચારત કે, દા સામાજ્ય ભાવાલય સમય જ દારામ ભવ્યા ભવા ભવસ મ

राक्त कर सकते हैं। स्थान : दिल्ली

दिनांक: 24,08,2021

प्राधिकत अधिकारी, फलर्टन इंडिया होम फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड

(CIN: L33301DL1988PLC033434)

पंजीकत कार्यालयः ई-10. लोअर ग्राचंड पत्नोर, लाजपत नगर-॥। नई दिल्ली-110024

दुरभाषः 011-41021297, वेबसाइट : www.timexindia.com, ईमेल : investor.relations@timex.com

33वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा जुगमा नी जाती है कि कंपनी के सदस्यों को भेजी गई सुचना विनाकित 30 जून, 2021 में किए गए उल्लेख के अनुवार व्ययसायिक पहुलओं पर पर्या करने के लिए येखियो कोहिंगि (नीसी)/अन्य ऑक्टियो विज्ञाल राह्ममों (ओएबीएम) के माध्यम से कंपनी की 33वीं बार्षिक आम बैटक (एजीएम) बृहल्यविवार, 16 सितन्बर, 2021 को अवसङ्ग 4.00 बजे आयोजित होगी। कॉरपॉरेट कार्य विचयक मंत्रालय हारा चारी साधारण सर्कृतर दिनांक 8 अग्रेस, 2020, 13 अग्रेस, 2020, 5 गई, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021 ("एमशीए कर्कृतर") तथा भारतीय प्रतिनृति एवं विनिमय बीर्ड हारा जारी तथा साधारण सकुंबर रिनांक 12 मई, 2020 तथा 15 जनवरी, 2021 ("तंबी जुकुंबर") के अनुवार कंपनी ने वार्षिक प्रतिबंदन 2020-21 के बाय 30वीं एचीएच की ज्ञाचना क्रावार, 18 अगवत, 2021 को शिर्फ इसेक्ट्रॉनिक तरीक से जन सभी सदस्यों को भंज दी गई है जिनके ई-मेल आईडी कंपनी अथवा पंजीयक एवं अंतर एजेंट तथा क्रिपंजिटरी के पास पंजीकत हैं। एमसीए सर्कसरों तथा सेवी सर्कसर के तहत वार्षिक प्रतिबंदन तथा एजीएम की सुबना की भौतिक प्रतितिधि भेजने की जरूरत को भी समझ कर लिया गया है।

कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 के साव एजीएन की तुकना कंपनी की बेबसाइट वानी www.timexindia.com एवं बीएसई लिनिटेड की वेबासाइट वानी www.bseindia.com तथा एनएसठीएन की वेबसाइट यानी www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रकारों के साथ पठित उसके अधीन पठित नियमों, सेवी विनियमों तथा सचिविक मानकों के अनुपासन के तहत एजीएम में निर्वारित किए जाने वाले व्यवसायिक पहलुओं के संबंध में कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम से पहले तथा एजीएम के दौरान रिनोट ई-बोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी सभी सदस्यों के लिए ई-बोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनत सिक्वोरिटिंज क्रियांजिटरिज लिगिटेड (एनएसक्रीएल) को नियुक्त किया है। ई-वोटिंग के दिशा निर्देश एचीएम की सुवना में उत्लेखित है। सदस्यों को सुविध किया जाता है कि

- क. रिगोट ई-बोरिंग की अवधि 13 सितम्बर, 2021 (सुबह 9.00 बने) शुरू होगी तथा 15 सितम्बर, 2021 (अपराह्म 5.00 कने भमारा) समाप्त होगी। उनग्रोक तारीख एवं रागय के उपरांत एपएसडीएल दारा बोटिंग के लिए ई-बोटिंग प्रारूप निशक्त कर दी पाएगी।
- बदस्यों के लिए बोट जातने का अधिकार बुववार, 8 वितम्बर, 2021 (अतिम तारीख) को कंपनी की प्रदत्त इकिरटी शेयर पूजी में उनके हिस्से के समानुषात के अनुसार होगा। अंतिम तारीख को सदस्यों के राजिस्टर एसामनीगी रक्ताधिकारी के राजिस्टर में जिन बातियों के नाम दर्ज हैं चिके थे ही एचीएम से पहले अथवा दीयन रिमोट ई-बोटिंग की सुविधा का साम पाने के पात्र होंगे। रिमोट ई-बोटिंग प्रणाली की सुविधा बैटक के दौरान भी जपसब रहेगी तथा रिमोट ई-बोटिंग के जरिए अपना बोट नहीं डालने बाले सदस्य जो बैटक में उपस्थित होते हैं. तो बैटक के दौरान अपने अधिकारों
- का प्राचीग कर सकते हैं। जो सदस्य बैठक से पूर्व रिमोट ई-बोटिंग के जरिए अपना बीट डाल चुके हैं वे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बैठक में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु वे इन प्रस्तावों पर दोबारा बोट डालने के पाल वहीं होंगे।
- एक गैर-व्यक्तिगत रोवरचारक अथवा भौतिक प्रास्त्व में प्रतिभृतियां धारण स्त्रने वाले डेयरधारक, सुचना भेजे जाने के बाद कंपनी के रोवरों का अभिव्रहण किया है अथवा सदस्य पने हैं एवं अंतिम तारीख तक त्रेवर भारण रखते हैं, à avoting.nsdl.co.in पर अनुरोध बेज कर गुजर आईटी टावा पासवर्ड प्राया कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के लाव पंजीकृत हैं, तो बे वोट डालने के लिए अपने मौजुदा यूजर आईडी रामा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक प्रास्प में रोगर चारण करने वाले व्यक्तिगत रोगरधारक, जो सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के रोगरों का अभिग्रहण किया है अथवा सदस्य बने हैं एवं अंशिम तारीख तक प्रोगर धारण रखते हैं वे एजीएम की सूचना में उल्लेखित लॉगइन प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं। बदस्यगण ई-कोटिंग सुविधा के लिए एमएसटीएल अवदा सेंट्रेन टिमॉफिटरी -सर्विसेल (इंडिया) लिमिटेंड (बीटीएसएल) के साथ पंजीकृत हिपॉफिटरी पार्टिसिपेट के जरिए घारित डिमैट खाते के मौजूदा लॉगइन
- अनुसंबाओं का प्रयोग कर लॉगइन कर सकते हैं। ु जिन सदस्यों ने अब यक कंपनी/आरटीए/जीपी के साथ अपने ईमेल का पता पंजीवृत्र नहीं कराया है, जनसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एजीएन की सूचना क्या वार्षिक प्रतिचेदन प्राप्त करने तथा ई-बोटिन के लिए
- लोंग इन आईडी तथा पासवर्ड इाविल करने हेतु अपने ईमेल का पता मंजीवृत्त कराने के लिए नीचे उल्लेखित प्रक्रिया का अनुसरण करने का अनुसंध किया जाता है. भौतिक प्रास्त्र में वेयर धारण रखने वाले शेयरधारकों के लिए - कंपनी के पास investor.relations@timex.com पर ईमेल के जरिए फोलियो मं., शेयरवारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (साम एवं भीको जी रफेन की हुई प्रतिलिपि, पैन (पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित स्फेन की हुई प्रतिलिपि), आवार (आवार कार्ड की स्वयं सत्यापित स्फैन की हुई प्रतिलिपि) प्रयक्त करना होगा।
- हिमेट प्राप्तप में शेगर धारण रसने बाले शेगरधारकों के लिए कंपनी के पास investor relations@timex.com पर ईमेल के जरिए टीपीआईटी-सीएलआईटी (15 अर्को बाती टीपीआईटी+सीएलआईटी अथवा 16 अंको नाली बैनिफिसियरी आईही), नाम, क्लाईट मॉस्टर अथवा समेकित खाता निवरण की प्रतिक्रिपि, पन (पैन कार्ड की स्वयं सल्यापित स्केन की हुई प्रतिक्रिपि), आधार (आधार कार्ड की स्वयं राज्यापित रकेन की हुई प्रतिसिपि) प्रदत्त करना होगा।
 - ढिपॉजिटरी वानी एनएसडीएल सवा सीडीएसएस के जरिए लॉनइन से संबंधित किसी भी सकनीबी रामस्या के लिए डिमैंट प्रारूप में प्रतिभूतियां धारण रखने वाले व्यक्तिगत सेक्टसारकों के लिए August Prague 1

लॉगइन का प्रकार	हेल्प डेस्क का विवरण
एनएसतीएस के पास डिमेट प्रारूप में प्रतिभृतियां	लॉगइन में किसी भी तरह की तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्यगण पर evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज कर अकवा
धारण रसने बाते बातिमात शेयरधारकगण	टोल क्री नम्बर 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर कॉल कर एनएश्वरीएल डेल्पडेस्क से सम्पर्क कर सकते हैं।
सीडीएनएल के पान डिमेट प्रारूप में प्रतिमूर्तियां	लॉगइन में किसी भी तरह की तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्यगण पर helpdesk.evoting@cdsiindia.com पर अनुरोध
धारण रखने वाले व्यक्तिगत शेवरधारकगण	भेज कर अथवा 022-23058738 अथवा 022-23058542-43 पर कॉल कर पनएसडीएल डेन्पडेस्क से समर्थ कर कवते हैं।

एलदुलारा यह भी सुचना दी जाती है कि 16 बिराम्बर, 2021 को आयोजित होने वासी 33वीं एजीएन के उदेख से कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 91 के साथ परित कंपनी (प्रकंपन एवं प्रजासनिक) निवन 2014 के अनुसार कंपनी के सदस्यों के र्राजकर तथा शेवर अंतरण बड़ी गंगलवार, 14 सितम्बर, 2021 से बुधवार, 15 सितम्बर, 2021 तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेगी।

आपके पास अगर कोई प्रम है. तो आप www.evoting.nsd.com के ढाजस्तोडस रोक्डम में जपतव्य सदस्यों के लिए ई-बोटिंग यूजर नेनुअल तथा फ्रिक्टेटली ऑस्क्ड क्येन्यन्स (एकएक्यू) देख सकते हैं अथवा एनएसडीएल से निज्नलिखित टोल फ्री में. 1800-1020-990/1800-224-430 पर सत्पर्क कर सकते हैं अथवा evoting isotloo.in पर सुन्नी गल्सवी माहने, प्रकंपक, एनएसडीएल से सम्पर्क कर राकते हैं।

> निदेशक गंतल के आदेशानस कृते टाइगेक्स प्रप इंडिया सिमिटेड

श्रीरज कुमार मन्यो वीपी-विविक्त मानद संसाधन एवं कंपनी सचिव स्थान : नोएडा तारीख: 23 अगस्त 2021

079-68136844.1

जैस्त कि अधिनियम की धारा **13**(k) में अपेतित है, हमारे सभी बकाया हमारे द्वारा वहन सभी सामतें, प्रभारों और व्यव्यें सहित निक्री की तिथि या इस्तांतरण से पूर्व किसी भी समय हमें व्यव्या कर दिए जाते हैं तो प्रत्यामृत परिसंपति हमारे द्वारा बिकी या हस्तांतरित नहीं की जायेगी. और प्रत्यामृत परिसंपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए हमारे द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

कर्जदार / जमानतियों को बिक्री सचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमायली, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित नियम 9(1) के तहत उपर्युक्त प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के अंदर इसके बुगतान के लिए बाब्यकारियों (ऑब्लिगेट्स) को सुचना के रूप में माना जाए।

दिगांक: 24.08.2021 रवान दिल्ली

(प्राधिकत अधिकारी)

BHARTIYA INTERNATIONAL LIMITED BHBBTIVE

Read.Office: 56/7, Nallambakkam Village, (Via Vandalur), Chennal-600 127, Tamil Nadu CIN-L74899TN1987PLC111744 Tel: +91-9551050418-21 E-mail: shares@bhartiya.com Website: www.bhartiya.com

NOTICE TO THE MEMBERS ON INFORMATION REGARDING 34TH ANNUAL GENERAL MEETING

In view of the continuing covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its circular nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated April 8, 2020; April 13, 2020; May 5, 2020 and January 13, 2021 respectively ("MCA Circulars") permitted to hold Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Video Means ("OAVM") facility, without the physical presence of the members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules framed thereunder, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ["SEBI (LODR)"] read with SEBI Circular nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 8 SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated May 12, 2020 and January 15, 2021 respectively ("SEBI Circulars"); and MCA circulars, the Board of Directors of the Company has decided to convene the 34th AGM of the Company on Wednesday, 29th Sentember 2021 at 11:00 A.M. through VC/ QAVM facility to transact the businesses that will be set out in the AGM Notice

Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA and SEBI Circulars. To comply with the provisions of SEBI and MCA circulars, the notice of 34th AGM and Annual Report of the Company for Financial Year ended March 31, 2021 along with the login details for joining the 34th AGM through VC/ OAVM facility including e-voting details will be sent only by e-mail to all those members, whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agant (RTA) or with their respective Depository Participants (DPs), Members can join and participate in the 34th AGM through VC/ QAVM facility only. The instructions for joining the AGM, casting their vote at AGM and casting vote through remote e-voting will be provided in the Notice to the 34th AGM. Members participating through VC/ OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The notice of 34th AGM and the Annual Report shall also be available on the Company's website www.bhartiya.com and stock exchange's website www.bseindia.com and www.nseindia.com.

The Company is providing remote e-voting facility and e-voting facility to all its members to cast their votes on all the resolutions set out in the notice of 34th AGM. Detailed instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM is provided in the notice of 34th AGM. Members will have an opportunity to cast their vote remotely on the businesses as set out in the AGM Notice through e-voting

Members holding Shares in physical form who have not registered their e-mail address with the Company or RTA, can register their e-mail address for receipt of Notice of 34th AGM, Annual Report and the login details for joining the AGM through VC/ OAVM facility by sending a request to MAS Services Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company at info@masserv.com or contact Company Secretary of the Company at shares@bhartiya.com by providing their name, folio no, scanned copy of share certificates Front and Back), self-attested scanned copy of PAN card and Aadhar Card in support for registering their e-mail addresses.

Members holding Shares in demat form whose e-mail addresses are not registered are requested to register their e-mail address for receipt of Notice of 34thAGM. Annual Report and the login details for joining the AGM through VC/ OAVM facility, as per the process advised by their DPs. The registered e-mail address will also be used for sending future communications.

Any person, who acquire shares and become member of the Company after the date of electronic dispatch of Notice of 34th AGM and holding shares as on cut-off date i.e., Wednesday, 22nd September, 2021 may obtain the Login ID and password by sending a request at info@masserv.com/shares@bhartiya.com.

This notice is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the applicable circulars of the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India.

For Bhartiya International Ltd

Date: 23 August, 2021 Vonesh Kumar Gautam Company Secretary and Compliance Officer Place: Gurucram, Harvana

जीनस पावर इन्फ्रास्टक्चर्स लिमिटेड

Genus

(चंजोबल कार्यालयः जी-123, संक्टा-63, चोएडा-201507 (उत्तर प्रदेश)

(फोम: +01-0120-2581990, गिम: cs@genus.in, केपान्डर: www.genuspower.com, CIN: L51909UP1992PLC051997) 29वीं वार्षिक साधारण सभा, बहीबंदी तथा रिमोट ई-वोटिंग की सबना

एतद्वारा सुचित किया जाता है कि जीनस पावा इन्हास्टक्वर्स लिबिटेड की 29वीं वार्षिक माधारण मध्य (''एजीएम'') मुख्यार, 16 मितस्वर 2021 को साथ 3:30 बजे (भारतीय समयानसार) बीडियो कॉन्फ्रोसिंग (''वीसी'') अपना अन्य ऑडियों विज्ञान पाध्यामों (''आंएवीएम'') की सन्निधा के माध्यम से, कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके निर्मित नियमों तथा सेबी (सर्वायन टायिक्वों तथा प्रवादीकरण आवायकाराएँ) विनियम, 2015 के माच कॉर्फोरेट कार्च मंत्रालय लारा जारी मर्क्यलर मंख्या 14/2020 दिलांक 08 अप्रैल. 2020, मर्क्यलर मंख्या 17/2020 दिनोक 13 अप्रैल, 2020, सबर्यलर संख्या 20/2020 दिनोक 05 पर्द, 2020 और सबर्यलर संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 और अन्य सभी प्रांचिक सक्वेलर एवं सेबी द्वारा जारी प्रांसिक सक्वेलरों के अनुसार लागू होने बाले प्रावधान के अनुपालन में, एजीएमके नॉटिस में दी गई कार्यवाही को पूरा करने हेतु निर्धारित की गई है । सदस्य, एजीएय के नोटिस में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करके, एजीएम के प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में बीसी/ओएवीश्य के मध्यम से एजीएम में शामिल हां सकते हैं।

उपयुक्त सम्पर्दलरों के अनुसार, एजीएम का नॉटिस एवं विसीय वर्ष 2020-21 की वार्षिकी रिपोर्ट, 20 अवस्त 2021 को डैमेल द्वारा उन महत्त्वों को भोजी जा चकी है जिनको डेमेल पने कामनी रजिस्टार और टॉमफर एजेंट ("आरटीए")/हिपॉनिटरी पार्टिमिपेटस के पास पंडीकत है। उपरोक्त दस्तावेज क्रंपनी की वेबसाइट 'www.genuspower.com' सेंट्ल डिपॉनिंडरी सर्वितंत्र (श्रीडवा) लिपिटेड ("सीडीएसल"/CDSL) की वेपसाइट www.evetingindia.com और स्टॉक एक्सबेजों की बेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com.traftraperazifi. कट ऑफ निधि 09 सिलम्बर, 2021 को शंबर धारिन करने वाले सदस्य, 29वीं एजीएय की सूचना में निर्दिख कार्यवाही

पर एजीएम के दौरान हैं-वॉटिंग अधवा दुरस्य ई-वॉटिंग की मुविधा से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं। ई-वोटिंग और एजीएम में शामिल होने की जिल्हा प्रक्रिया एवं निर्देश एजीएम के नोटिस में निहित हैं। इस संबंध मे सदस्यों को सुचित किया जाता कि

- (1) दूरस्व ई-वॉटिंग की अवधि सोमवार, 13 सितन्तर, 2021 (प्रात: 9 वर्ज) से प्रारम्भ होकर बुधवार, 15 मितम्बर, 2021 (मार्च 05:00 बार्ज) को समाप्त होगी। उक्त ई-वोटिय कधित तिथि एवं समय के बाद स्थीकार वर्गीकी जाएंगे।
- (2) दूरस्वर्ष-कोटिंगको सीडीएसलद्वारा सार्थ 05:00 बजेके बाद निक्रिय कर दिया जाएगा।
- (३) किसी सदस्य के लिए दूरस्थ ई-बोटिंग सुविधा का उपयोग करके पतदान करना अनिवार्य नहीं है। सदस्यों के पास एजीएम में भाग लेकर हूं - मोटिंग के माध्यम से बोट डालने का भी विकल्प है। सदस्य महदान के लिए केवल एक ही माध्यम का विकास्य चन सकते हैं । जिन सहस्यों ने बैठक से पहले दूरस्थ हैं - वॉटिंग हारा अपना बॉट हाला है, वह भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिर से अपना बोट डालने के हकदार नहीं होगे।
- (4) यह व्यक्ति निसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या द्वियोंजिटरी द्वारा रखें गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि 09 सितम्बर, 2021 के दिन दर्ज है, वह ही कोवल एजीएम में ई-वेटिंग या दुरस्थ ई-वेटिंग सविचा प्राप्त करने के हकदार होंगे। वह व्यक्ति जो उक्त कट-ऑफ तिथि के दिन महस्य नहीं है, वह इस नीटिय को एवं एजीएम के नोटिस को कंवल जानकारी हेत् ही उपयोग में ले।
- सदस्य, जिनको पास भौतिक लग में शंयर हैं या जिन्होंने कांपनी को साथ अपने हंमोल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे रियोट ई-बोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान ई-बोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम के नोटिस में अन्तेश्चित प्रक्रियाओं /निर्देशों का पालन करके अपना योट हाल सकते हैं।
- (6) ਫਿਰ ਬਰਮਕੀ ਤੋਂ ਮੁਖਰੀ ਵੈਸੇਲ ਚਾਫ਼ੀਅਨ ਤਹੀਂ ਅਤੇ ਵੈ ਪਾ ਕਿਤਰੀਤੇ ਸ਼ਾਗਿਸ ਅਤੇ ਜੀਟਿਸ ਸਭੱ ਗਰਿੰਕ ਵਿਧਾਵੇਂ ਅੰ ਚੇਖਰਾ ਕੈ बार जीवरों का अधिकारण किया है और जो कर-ऑफ लिबि. वानी गमलार, 64 विजयार 2021 को जीवर धारण करना जारी एखनें है, वे ई-खेटिंग के लिए एजीएय की सचना में दिए गए निर्देशों के अनसार बजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त/ज्यान कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति/सदस्य पहले से ही ई-सोटिंग के लिए सीडीएसएल (CDSL) / एनएसडीएल (NSDL) के साथ पंजीकत है तो मौजूदा लॉगिन आईडी और पासवर्ड का ज्ययोग कर अपना वोट डाल सकता है । सदस्य ई-वोटिंग सविधा के लिए एनए सडीएल /सीडीएसएल के साथ पंजीकत अपने डिपॉनिंग्टरी पार्टिसिपेंट के माध्वम से अपने डीमेंट खाते के लॉगिन क्रोडेशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। ई-वॉटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए सदस्यों को अपने श्रीमैट खातों में अपने मोबाइल वंबर और इंमेल-आईडी अपडंट करने की सलाह दो जाती है।
- सदस्य, जो बीसी/ओएबीएम की सुविधा के माध्यम से एजीएम में मीजूद है और उन्होंने रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम सं प्रस्तावों पर अपना बोट नहीं डाला है अन्यथा ऐसा करने से रोक नहीं है, वह एजीएम के दौरान र्द-वारिंग को माध्यम में बोट करने को लिए पाप प्रोगे।
- वीसी/ ओएबीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्य को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कांग्रम की गणना में शामिल माना जाएगा।
- () पदि आपको पास सीडीएसएल ई-वॉटिंग सिस्टम सं एजीएम और ई-वॉटिंग में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न पा समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com घर एक हंगेल लिख सकते हैं या 022-2308738 और 022-23058542/43 पर संपर्क कर सकते हैं।
- (10) इलेंक्ट्रॉनिक माध्यप से यतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों को भी राकेश दलवी, सीनियर मैर्वजर. संदर्भ डिपॉकिटरी मर्बिसंब (इंडिया) शिर्वाग्टेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, वेराधव प्रयुवरएक्स, मणतलाल मिल क्रांपारंड्स, एनएम जोजी मार्ग, लोजर परेल (पूर्व), मूंखई - 400013 कां संबोधिन किया जा सकता है था helpdesk evoting@cdslindia.com. पर भेला जा मकला है पा 022-23058542/43 पर कॉल किया जा सकता है।
- 11) कम्पनी के निदेशक मेडल ने दूरस्थ ई-बोटिंग एवं वार्षिक सामान्य सभा के दौरान ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जीच करने के लिए भी सी. एय. विन्दल, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव(एफसीएस नं. 103, सीपी नं. 176) (पेंसर्स सी. एप. बिन्दल एंड कप्पनी, कप्पनी सचिव, जयपुर) को संबीक्षक के रूप में नियुक्त figurit :

निदेशक मंडल ने विसीय वर्ष 2020-21 को लिए का.0.50 (50 पैसे) प्रति ईक्किटी शेयर (1 का. ऑकित मृत्य पर) (ऑकित मान्य का 50 प्रतिज्ञात) लाभांज्ञ श्रीयरधारको की अनुमति के लिए प्रस्ताधित किया है। श्रीयरधारकों का राजिस्टर तथा शंघर इस्तांतरण राजिस्टर शकुवार, 10 सितम्बर, 2021 से गुरुवार 16 सितम्बर, 2021 (दोनों दिव पहित), वार्षिक सामान्य बैठक के लिए एवं लाभांश के लिए सदस्यों के आधिकारों का निर्धारण करने के हेत् बंद रहेंगे। चदि सदस्य एजीएम में अनुमति दे देते है तो लाभांश का भगतान (खोत पर कर कदौती के अधीन वदि लागु है) 15 अकटूबर 2021 या उत्तरसे पहले, उन सदस्यों को कर दिया जाएगा जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में 09 सितन्वर 2021 को व्यावसायिक घंटों के चंद होने के समय उपस्थित रहता है। लाभोश का भूगतान विभिन्न ऑनलाइन हस्तारण माध्यम में उन महस्यों को किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवारण अपहंद किया है । जिन महस्यों ने अपने बैंक खाते के विचरण को अपडेट नहीं किया है, उनके लिए लाभांश वारंट / चेक उपने पंजीकृत पते पर हाक सेवाओं की उपलब्धता होने घर भेजा आएगा। लाभांश ग्राप्त करने में देरी से खबने के लिए, सहस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉलिटरी पार्टिसियेट्स, (चिंद ग्रांचर डीमेंट में हैं), और आरटीए/कंपनी, (चींद ग्रांबर भीतिक रूप में हैं), के साथ अपने वैंक विवरण को अपहेट करें । विन अधिनियम 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, लाभांश आय सदस्यों के हाओं में कर योग्य है और कंपनी निर्धारित दरों पर सदस्यों को भूगतान किए गए लाभांत्र से स्वोत पर कर की कटीती करने हेतु थाध्य है। टीटीएस के अनुपालना हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी / आरटीस् (यदि शेवर भौतिक रूप में हैं)और डिपॉजिटरी (चिंद्रशंबर डीमैंट मोड में हैं)के साब अपना पेन अपडेट करें।

कृते जीनम पावर इन्फ्रास्टक्चमें लिपिटेड ऑकत झांझरी दिनांक: 23 अगस्त, 2021 कंपनी मचिव